

## पुलिस अधीक्षक महोबा के नेतृत्व / निर्देशन पर जनपदीय पुलिस के समस्त कार्यालयों/थानों में जनसुनवाई का आयोजन कर जनसामान्य की समस्याओं को किया गया निस्तारित-

आज दिनांक 29.12.2022 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय, महोबा में जनसुनवाई की गई, इस दौरान पुलिस कार्यालय में आने वाले फरियादियों/जनसामान्य की समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा उनकी समस्याओं के समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए, जिसमें पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में मौके पर जाकर शिकायतों की तत्काल, निष्पक्ष व न्यायोचित जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया तथा शिकायतकर्ता से समय-समय पर जनसामान्य की समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध में फीडबैक लिये जाने सम्बन्धी आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

इस दौरान क्षेत्राधिकारी कार्यालय/यातायात सुश्री हर्षिता गंगवार व क्षेत्राधिकारी सदर श्री रामप्रवेश राय मौजूद रहे।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस के सभी कार्यालयों/थानों में सम्बन्धित प्रभारी द्वारा प्रतिदिन की भांति जनसुनवाई का आयोजन किया गया, इस दौरान फरियादियों की समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया व प्राप्त शिकायतों का शीघ्र/गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया गया।



जिलाधिकारी महोबा एवं पुलिस अधीक्षक महोबा ने गुरुद्वारा पहुंचकर अरदास करते हुये सिख धर्म के दसवें गुरु, खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर शुभकामनाएं दी...।

महान योद्धा त्याग और वीरता के प्रतीक, खालसा पंथ के संस्थापक, सिख धर्म के दसवें गुरु - गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर आज दिनांक 29.12.2022 को जिलाधिकारी महोबा श्री मनोज कुमार व पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह द्वारा गुरुद्वारा पहुंचकर अरदास की गयी तथा इस पवित्र अवसर पर सभी जनपदवासियों को शौर्य और वीरता के प्रतीक गुरु गोबिंद सिंह जी की जयन्ती ( प्रकाश पर्व ) की शुभकामनाएं दी गयीं।

इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी कार्यालय/यातायात सुश्री हर्षिता गंगवार, क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय, प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली महोबा श्री बलराम सिंह सहित सिख समुदाय के सम्मानित लोग मौजूद रहे ।



## पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा थाना कुलपहाड़ में सर्किल कुलपहाड़ के सभी थानों का किया गया अर्दली रुम, लम्बित विवेचनाओं की समीक्षा कर दिये सख्त निर्देश...

आज दिनांक 29.12.2022 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह द्वारा थाना कुलपहाड़ परिसर में सर्किल कुलपहाड़ के सभी थानों क्रमशः थाना कुलपहाड़, थाना पनवाड़ी, थाना महोबकंठ व थाना अजनर के विवेचकों का अर्दली रुम किया गया।

इस दौरान क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री उमेश चन्द्र, सर्किल के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष/उपनिरीक्षक मौजूद रहे, अर्दली रुम के दौरान पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा समस्त विवेचकों से लम्बित विवेचनाओं के संबंध में विस्तृत रूप से समीक्षा वार्ता करते हुये विवेचना लम्बित रखने का कारण पूछा गया एवं अकारण विवेचनाओं को लम्बित रखने वाले विवेचकों को सख्त हिदायत देते हुए विवेचनाओं का समय से निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया।

साथ ही पुलिस अधीक्षक द्वारा शिकायती जांच प्रार्थना पत्रों की त्वरित जाँच कर गुणवत्तापूर्ण विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने, गैंगस्टर अभियुक्तों पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए उनके विरुद्ध कुर्की की कार्यवाही करने तथा महिला संबंधी अपराधों को गंभीरता से लेते हुए अपहृताओं की त्वरित बरामदगी हेतु भी निर्देश दिये गये।



## थाना कबरई पुलिस टीम ने 10,000/- रुपये के ईनामिया

## वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार, कब्जे से अवैध

## तमंचा व चोरी की हुयी सामग्री बरामद-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपद में अपराध की रोकथाम एवं शांतिर अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में दिनांक 28.12.2022 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के. गौतम व क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कबरई श्री विनोद कुमार द्वारा गठित की गयी उ0नि0 राशिद अली के नेतृत्व में पुलिस टीम को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी टीम ने मु0अ0सं0 290/22 धारा 457/380/411 भादवि थाना कबरई से सम्बन्धित वांछित इनामिया अभियुक्त उमा अहिरवार पुत्र टाई अहिरवार उम्र 27 वर्ष नि0ग्राम मकरबई थाना कबरई जिला महोबा जिस पर 10000 रुपये का ईनाम पुलिस अधीक्षक जनपद महोबा द्वारा घोषित किया गया था, अभियुक्त उपरोक्त को मुखबिर खास की सूचना पर थानाक्षेत्र के मकरबई तिराहा वहद ग्राम अलीपुरा थाना कबरई जनपद महोबा से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया, अभियुक्त के कब्जे से एक प्लास्टिक की बोरी मे माल मशरुका 40 किग्रा गेहूँ व 01 अदद तमन्चा मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 372/22 धारा 3/25 ए एक्ट का अभियोग पंजीकृत करते हुये अभियुक्त को मां0 न्यायालय में पेशी के उपरान्त जेल भेजा गया।

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 राशिद अली
2. कां0 अवनेश कुमार

## बरामद सम्पत्ति एवं अभियुक्त उमा अहिरवार का आपराधिक इतिहास –

एक प्लास्टिक की बोरी मे 40 किग्रा गेहूँ सम्बन्धित मु.अ.सं. 290/22 धारा 457/380/411 भादवि थाना कबरई से व एक अदद तमंचा व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

क्र. सं.	मु0अ0स0	धारा	थाना
1	21/17	379/411 भादवि	चरखारी
2	22/17	379 भादवि	चरखारी
3	48/18	3(1) गैग स्टर एक्ट	चरखारी
4	62/22	3/25 आर्म्स एक्ट	कबरई
5	290/22	457/380/411 भा0द0वि0	कबरई
6	372/22	3/25 आर्म्स एक्ट	कबरई



## पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा थाना कुलपहाड़ का किया गया औचक निरीक्षण, थाना कार्यालय के अभिलेखों का अवलोकन कर सम्बन्धित को दिये आवश्यक निर्देश..।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह द्वारा आज दिनांक 29.12.2022 को थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा का औचक निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान थाना परिसर की साफ-सफाई, भोजनालय, बैरक आदि को चेक करने के साथ-साथ थाने के शस्त्रागार तथा थाना कार्यालय में रखे महत्वपूर्ण अभिलेखों यथा अपराध रजिस्टर, त्यौहार रजिस्टर, ग्राम अपराध रजिस्टर आदि का बारीकी से निरीक्षण करते हुए सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

महिला हेल्प डेस्क- मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत व महिला सम्बन्धित शिकायतों का तत्काल संज्ञान लेने व त्वरित कार्यवाही हेतु थानों पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क का निरीक्षण किया गया तथा महिला सम्बन्धी शिकायतों को रजिस्टर में दर्ज कर शिकायत पर की गयी कार्यवाही भी दर्ज करने के साथ-साथ पीडित से फीडबैक लेने सम्बन्धी आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना क्षेत्र में अपराध की रोकथाम हेतु ड्यूटी के दौरान विशेष सतर्कता बरतने सम्बन्धी आवश्यक दिशा निर्देश दिये।

इस दौरान क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री उमेश चन्द्र, थाना प्रभारी कुलपहाड़ श्री चन्द्रशेखर सिंह सहित थाना हाजा पर नियुक्त अधि०/कर्मचारीगण मौजूद रहे।



## पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपदीय पुलिस बल द्वारा जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पैदल गस्त कर आम-जनमानस को दिलाया गया सुरक्षा का भरोसा ।

आज दिनांक **29.12.2022** को पुलिस अधीक्षक महोबा सुधा सिंह के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा आर0के0 गौतम के निकट पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस बल द्वारा जनपद के संवेदनशील स्थानों पर प्रभावी पैदल गस्त की गयी तथा अफवाहों पर ध्यान न देने हेतु की गयी अपील, स्थानीय लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखने, अराजकता फैलाने वालों की सूचना पुलिस को देने की अपील की गयी ।

जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारियों द्वारा अपने-अपने सर्किल में तथा सभी थानाध्यक्षों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार, धार्मिक-स्थल, बस-स्टैंड, रेलवे स्टेशन ढाबा आदि जगहों पर पैदल गस्त करते हुए यातायात नियमों को उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए वाहनों के चालान व सीज करने की कार्यवाही की गई ।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा शराब की दुकानों का निरीक्षण किया गया एवं सेल्समैन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए ।

यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर वाहनों के ई-चालान किये गये ।



महोबा पुलिस